

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 57]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 27 जनवरी 2016—माघ 7, शक 1937

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2016

क्र. एफ-3-10-2011-छः.—धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्य को सुचारू रूप से संचालन एवं सुव्यवस्थित करने के लिये राज्य स्तर पर विभागाध्यक्ष कार्यालय की नितांत आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन भोपाल में:—

1. धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के अंतर्गत मंदिरों के जीर्णोद्धार, धर्मशाला निर्माण, सेवादारों का मानदेय आदि महत्वपूर्ण कार्यों के विकास एवं विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए विभागाध्यक्ष कार्यालय, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व गठित करता है.
2. उक्त कार्यालय के लिये विभागीय संक्षेपिका दिनांक 8 दिसम्बर 2015 की कण्डिका 7 में वर्णित अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय, संचालक, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व की स्थापना हेतु निम्न सेटअप के लिये 15 नवीन पद सृजित कर, उनकी पूर्ति कर्मचारियों की सेवाएं अंतरित/संविलियन/प्रतिनियुक्ति से की जावे:—

क्र. (1)	पदनाम (2)	पद संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	संचालक	01	37400-67000+ग्रेड-पे 10000
2.	संयुक्त संचालक	01	15600-39100+ग्रेड-पे 7600
3.	उप संचालक	01	15600-39100+ग्रेड-पे 6600
4.	सहायक संचालक	02	9300-34800+ग्रेड-पे 4200
5.	सहायक यंत्री	01	15600-39100+ग्रेड-पे 5400
6.	लेखाधिकारी	01	15600-39100+ग्रेड-पे 5400

(1)	(2)	(3)	(4)
7.	अधीक्षक	01	9300-34800+ग्रेड-पे 3600
8.	उपयंत्री	01	9300-34800+ग्रेड-पे 3200
9.	सहायक ग्रेड-एक	01	5200-20200+ग्रेड-पे 2800
10.	सहायक ग्रेड-दो	01	5200-20200+ग्रेड-पे 2400
11.	सहायक ग्रेड-तीन	02	5200-20200+ग्रेड-पे 1900
12.	स्टेनोग्राफर	01	9300-34800+ग्रेड-पे 3600
13.	स्टेनो टायपिस्ट	01	5200-20200+ग्रेड-पे 1900

3. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का 01 पद एवं भृत्य के 06 पद इस प्रकार कुल 07 पद सृजित कर इनकी पूर्ति आऊट सोर्सिंग से की जावे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र सिंह, अपर सचिव.